



प्रेस नोट

दिनांक-03.11.2022

थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित व 10-10 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 01 नफर अभियुक्त एवं 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी डेरापुर के कुशल नेतृत्व में थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित व 10-10 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1.सुनील पुत्र बलवान उम्र 38 वर्ष निवासी अलियापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात व 01 नफर अभियुक्ता को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 03.11.2022 को गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 24.04.2022 को वादिनी द्वारा अपने पिता सन्तोष कुमार की हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0-116/2022 धारा 302/201 भादवि बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा 10-10 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था। जिसे दिनांक- 03.11.2022 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्ता को माननीय न्यायालय नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सुनील द्वारा बताया गया कि मृतक सन्तोष कुमार की पत्नी से हमारा करीब 20 वर्ष से प्रेम प्रसंग चला आ रहा था, मृतक ने अपनी पत्नी को काफी बेइज्जत किया था जिस कारण से हम दोनो ने मिलकर सन्तोष की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सुनील पुत्र बलवान उम्र करीब 38 वर्ष निवासी अलियापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. 01 नफर अभियुक्ता

अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 138/20211 धारा 498ए/323/504/506 भादवि 3/4डी.पी एक्ट थाना मंगलपुर कानपुर देहात
- 2.मु0अ0सं0 116/2022 धारा 302/201/120बी भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 116/2022 धारा 302/201/120बी भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 अमरेन्द्र बहादुर सिंह थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 2.उ0नि0 दिनेश कुमार चौकी प्रभारी चौकी संदलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 3.हे0का0 281 सुनील कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 4.का0 47 योगेश कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 5.का0 768 परभंजन थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 6.का0 208 रवीकरन थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 7.म0का0 1233 सावित्री यादव थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 8.का0 306 भूपेन्द्र सिंह थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**